



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 1982/भाद्र 26, 1904

No. 415]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1982/BHADRA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रह सत्रालय

3 धिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1982

क्रा. आ. 673(3) —केंद्रीय सरकार की राय है कि त्रिपुरा राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित क्षेत्र में, ऐसी खतरनाक परिस्थिति है कि सिविल शक्ति की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है,

अतः केंद्रीय सरकार, सशस्त्र बल (विकास इतिवृत्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

त्रिपुरा में उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र, नीचे वर्णित रखाओं में परिचालित है —

(क) पूर्वी सीमा मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सीमाबद्ध है। उत्तरी सीमा, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नक्शे 83 डी/1 पर 767230 अंककश से आरम्भ होता है और पश्चिम में असम तथा त्रिपुरा के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नक्शा 83 डी/1 पर नालाबन्ध 616228 की ओर जाती है।

(ख) पश्चिमी सीमा, नक्शा 83डी/4 पर नालाबन्ध 646228 से आरम्भ होने वाली रेखा द्वारा परिभाषित है और नाला कला गैंग के साथ-साथ जाकर गाव कचरेबारी 640172 तक जाती है, तत्पश्चात् गाव कचरेबारी और तगचरेबारी 605142 को जोड़ने वाली रेखा के साथ-साथ जाती है, फिर वह नाले के साथ-साथ छिरा 604115 पर गाव तक जाती है, फिर नाले के साथ-साथ गाव मछमारा 595102 तक और मछमारा छिरा पर भाटी मछमारा 681094 तक जाती है। उसके बाद पट्टीछिरा 581012 के साथ-साथ गाव नूतनपहारा 583977 तक फिर सानन्दपारी 598946 तक, तब नक्शा 84क/1 पर गाव गामाहादारी 595921 तक, नाला कमरमारा छिरा के साथ-साथ गाव नूइचन्दबारी 593864 तक उसके पश्चात् नाला नूइचन्द छिरा के साथ-साथ नाला बन्द 579826 तक जाती है, तब सीमा नाला लावर छिरा और राजधर छिरा के साथ-साथ गाव ईशरयापारा त्रिपुरी 565745 और दुर्लेशिंग पारा त्रिपुरी 561738 तक जाती है, वहां से मालीधर छिरा पर बिन्दु 68,549721 तक और तब नाले के साथ-साथ अभिमन्यु पारा 549703 से कनराजगारा 558677 तक और नक्शा 84-क/2 पर बिन्दु 645, 324292 तक, तत्पश्चात् मत् नदी के साथ-साथ दयारागंधारा 321278 तक और अन्त में भारत और बंगलादेश के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बिन्दु 273 7377210 तक जाती है।

[फा सं 4/9/82-ए एम]

पी पी नय्यर, दिशाना चित्र

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1982

**S.O. 673(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that the area described in the Schedule below in the State of Tripura is in such a dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of the civil power is necessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said area to be a disturbed area.

## SCHEDULE

The area declared as disturbed area in Tripura is encompassed by the lines described below :—

- (a) The Eastern limit is bounded by inter State boundary between Mizoram and Tripura. The Northern limit commences at the tri-junction, 767230 on Map 83 D/7 of the inter State boundary between Assam, Tripura and Mizoram and run Westward along the inter State boundary between Assam and

Tripura towards Nullah bend 646228 on map 83 D/4.

- (b) The Western limit is defined by the line starting at Nullah bend 646226 on map 83 D/4, along the nullah Kala Gang to village Kacharaibari 640172, along line joining villages Kacharaibari and Baghaicharaibari 605142, along nullah to the village on Iachhin Chhara 604115, along the nullah to the village Maachhmaia 595102 and Bhatj Machhmara 681094 on Machhmaia Chhara, along Patichhara 581012 to village Nutanpahara 583977, to Sanandapari 598946, village Gamahanbari 595921 on Map 84 A/1, along nullah Kamaimara Chhara to village Tuichandbari 593864 along nullah Tunchang Chhara to Nullah bend 579826, along nullahs Lawan Chhara and Rajdhar Chhara to villages Isharaypara Tripuri 565745 and Dulshing para Tripuri 561738, to point 68, 549721 on Malidhar Chhara, along nullah to Abhimanyupara 549703 to Kuprajangpara 558677, to point 645, 324292 on Map 84 A/2, to Dayarampara 321278 along Manu River to point 273, 7327210 on the international boundary between India and Bangladesh.

[File No. 4/9/82-AM]

P. P. NAYYAR, Special Secy.